

A/No - 3/MR-3054/MBD/2020-21

Schedule XLV-Form No. 134

N/W: - T P Jhari Chowk to Bangal Booter
via Panasi under MR-3054

RWD, WD, KISHANGANJ-2 **DIVISION**

POTHIA **SUB-DIVISION**

MB No. 1095

MEASUREMENT BOOK

Kamal Engineer's Pvt Ltd.

प्रमाणित किया जाता है कि इस मापि पुस्त में कुल 100
(एक सौ) मुद्रित दोहरे पृष्ठ हैं। जो... श्री राम प्रसाद
सहायक अभियंता, ग्रा०का०वि०कार्य अवर प्रमण्डल... पोथिया
के नाम से निर्गत किया जाता है।

कार्यपालक अभियंता
ग्रा०का०वि०, कार्य प्रमण्डल
कियातक-2
24/6/2007

Sch. XLV—Form No. 134

RWD, WD, KISHANGANJ-2 DIVISION

POTHIA SUB-DIVISION

Measurement Book

No. 1095

Name of Officer Sri. Ramu prasad.

Assistant Engineer.

Date of first entry

Date of last entry

1st on AIC Bill

Name for work— Detailed Measurement
 Situation of work—
 Agency by which work is executed—
 Date of measurement—
 No. and date of agreement.
 (These four lines should be repeated at the commencement of the measurements relating to each work.)

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
N/W-MR Tipi Ghani Chuk to Bengal					
Border wa kandi					
Inland MR 3054.					
Agry- Kamee Engineers (P) Ltd.					
Date of start - 24-06-2020					
Date of Completion - 23-03-2021					
Date of Entry - 15-01-2021					

(1) Check and subsoil mud
 Verifier's name do do

$$\begin{aligned}
 & 10 \times 30 \times 2 \times 1.00 = 600 \text{ cum}^2 \\
 & 30 \times 30 \times 2 \times 1.00 = 1800 \text{ cum}^2 \\
 & 20 \times 30 \times 2 \times 1.00 = 1200 \text{ cum}^2 \\
 & 10 \times 30 \times 2 \times 1.00 = 600 \text{ cum}^2 \\
 & 20 \times 30 \times 2 \times 1.00 = 1200 \text{ cum}^2 \\
 & 10 \times 30 \times 2 \times 1.00 = 600 \text{ cum}^2 \\
 & \text{Total} = 6000 \text{ cum}^2 \\
 & \text{at } 0.60149
 \end{aligned}$$

(2) Continuation of Subsoil

Subsoil Shaleen do do

$$\begin{aligned}
 & 20 \times 30 \times 2 \times 0.70 \times 0.30 = 252 \text{ cum}^3 \\
 & 30 \times 30 \times 2 \times 0.70 \times 0.30 = 378 \text{ cum}^3 \\
 & 10 \times 30 \times 2 \times 0.70 \times 0.30 = 126 \text{ cum}^3 \\
 & 20 \times 30 \times 2 \times 1.00 \times 0.30 = 360 \text{ cum}^3
 \end{aligned}$$

Continuation

Abstract of Cost

19

Sch. XLV—Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
(1) Chug and abutment disturbance across dolo					
Quale shalo (1) P-1 ue					
0.60149					
Ques 51133.761/149 — m					30680 ²⁰⁰
(2) Construction of Subgrade retaining shoulder dolo					
Quale shalo (2) P-1 ue					
126000000 ³					
Ques 178.86/m ³ — m					225364 ²⁰⁰
(3) Pallets Paving of Road					
hills with w Bm- ss-II dolo					
Quale shalo (3) P-6 ue					
198400000 ³					
Ques 1574.90/m ³ — m					312460 ²⁰⁰
(4) Pallets Paving of Road hills with w Bm- ss-II dolo					
Quale shalo (4) P-11 ue					
101.763000 ³					
Ques 4620.23/m ³ — m					470168 ²⁰⁰
(5) Pallets Paving of Road hills with w Bm- ss-II dolo					
Quale shalo (5) P-16 ue					
149.137000 ³					
Ques 4319.46/m ³ — m					644191 ²⁰⁰

Continuation

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
					BF-A 1682863200
(6) Puhin Puhie cut with endon dolo					
Quadrant No (6) P-17					
are 1988.50m ²					
@ 4365/m ² — u					86798200
(7) Puhin Tuck cut with P-1 dolo					
Quadrant No (7) P-17 ne					
1988.50m ²					
@ 14.82/m ² — u					2947020
(8) Puhin 20m wide					

Puhin Puhie dolo					
Quadrant No (8) P-17 u					
1988.50m ²					
@ 22012/m ² — u					437709200
(9) Puhin Tuck cut with afun cehon dolo					
Quadrant No (9) P-17					
are 7537.50m ²					
@ 12.41/m ² — u					93540200
(10) Puhin SDRB with adon metits with Blin dolo all cable 200					
at 12					233038020

Continuation

P. To

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	

Continuation